

The BSE Ltd.
BSE's Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

KAMA/SEC/ 2023 16th August,2023

Dear Sir,

Sub: Newspaper Clippings of Un-Audited financial Results for the quarter ended June 30, 2023 – KAMA Holdings Limited

In Compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith copies of Un-audited Financial Results for the quarter ended 30 June 2023 published in The Pioneer (English) and The Pioneer (Hindi) newspaper. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at www.kamaholdings.com

Request to kindly take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For **KAMA HOLDINGS LIMITED**

Ekta Maheshwari Whole-time Director, CFO & Company Secretary

Encl: A/a

KAMA Holdings Limited

Block-C, Sector-45 Gurgaon 122 003 Haryana, India Tel: +91-124-4354400 Fax: +91-124-4354500 Email: info@kamaholdings.com Website: www.kamaholdings.com

Regd. Office: Jnit No. 236 & 237, 2nd Floor DLF Galleria, Mayur Palace Mayur Vihar Phase-1 Extension Deihi 110091



प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी

🛡 एनसीआर के लिए रीजनल प्लान, केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति को ६० हजार वर्ग मीटर जमीन

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा प्राधिकरण की 210वीं बोर्ड बैठक अवस्थापन एवं औद्योगिक विकास आयुक्त व नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बार बोर्ड में कुल 18 प्रस्तावों को रखा गया। जिसमें न्यू नोएडा डीएनजीआईआर, चिल्ला, यातायात रीजनल प्लान, भंगेल एलिवेटड, सेक्टर-42 का नियोजन और भ प्रयोग में बदलाव आदि पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में ऑनलाइन अनिल सचिव, कुमार सागर प्रमुख

परिचालन से कुल आय

अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि), (कर,

अपवाद तथा/अथवा असाघारण मदों से

अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर से पहले

(अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के

अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पश्चात

(अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के

अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें

इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू.

अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा

अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित

संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर, जैसाकि

पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है)

प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/-प्रत्येक का)

Particulars

Total Income from operations

Net Profit for the period before

Net Profit for the period after

Total Comprehensive Income for the period [Comprising

Profit for the period (after tax)

and Other Comprehensive

Earnings Per Share (of ₹ 10

Income (after tax)]

Other Equity

Basic (₹)

Diluted (₹)

(b)

Place : Delhi

Date: 14.08.2023

Equity Share Capital

(जारी और बंद प्रचालनों हेतु)

स्थान : मुंबई

No.

2

Tax

तिथि : 14-08-2023

सं.

नक्शा-कंपलीशन सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग शल्क में बढोतरी

नक्शा पास या भवन अनुज्ञा शुल्क में 15 रुपए से 30 रुपए प्रति वर्गमीटर और अभिन्यास योजना के लिए 4 हेक्टेयर तक के भूखंड क्षेत्र के लिए 2 रुपए प्रति वर्गमीटर और 4 हेक्टेयर से ज्यादा के लिए 1 रुपए प्रति वर्गमीटर किया गया है।

एनिमल शेल्टर के संचालन को कंपनी चयन प्रक्रिया में बदलाव

एनिमल शेल्टर के कंपनी का चयन आरएफ पी के जरिए किया जाए। इसमें संचालन के लिए निश्चित धनराशि प्रतिमाह निर्धारित करते हुए फ इनेंशियल बिड के प्रावधान को समाप्त करते हुए उच्चतम अंक पाने वाली संस्था को चयनित किया जाए।

गंगाजल योजना में बाधा के निपटारे के लिए समिति गठित

37.50 क्यूसेक गंगाजल योजना में आ रही बाधा के निपटारा के लिए अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति साइट विजिट कर अभी तक किए गए कार्य की गुणवत्ता और पूर्णता के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

सिंह, सतीश पाल, प्रभास मौजूद रहे।

एनसीआर क्षेत्र में टैफि क अवरोध को समाप्त कर रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रीजनल

इंटीग्रा टेलीकम्युनिकेशन ऐंड सॉफटवेयर लिमिटेड

सीआईएन : एल७४८९९डीएल१९८५पीएलसी०२०२८६

पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नंबर 1311, देविका टावर 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

कार्पोरेट कार्यालय : 610/611, निर्मल गैलेक्सी एवियर, एल.बी.एस. रोड, मुलुंड (डब्ल्यू), मुंबई-400080

30-06-2023 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित परिणामों के विवरण का सारांश

अ—लेखापरीक्षित

3.74

(2.43)

(2.43)

(2.43)

1,056.00

(0.02)

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक

एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित रूप है। वित्तीय

परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2023 को

आयोजित उनकी संबंधित बैठक में अनुमोदित किए गए थे। वित्तीय परिणामों का फार्मेंट स्टॉक एक्सचेन्ज की

वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www. integratelesoftware.com पर

COSCO (INDIA) LIMITED

CIN: L25199DL1980PLC010173

Regd. Office: 2/8, Roop Nagar, Delhi-110 007

Website: www.cosco.in Email: mail@cosco.in

Tel.: 91-11-23843000 Fax: 91-11-23846000

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

4,555.49

122.58

54.33

55.08

416.10

1.31

1.31

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the

Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements

Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on

Quarter Ended

30.06.2023 30.06.2022 31.03.2023

3,364.35

16.45

6.78

6.78

0.16

0.16

416.10

Unaudited Unaudited

ई-मेल आईडी : info@integratelesoftware.com य वेबसाइट : www. integra

विभाग, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ प्लान तैयार किया जाएगा। सलाहकार लोकेश एम, सीईओ ग्रेटर नोएडा रवि कंपनी नियुक्त करने के लिए आरएफ एनजी. एसीईओ कपिल सिंह के पी जारी करने का निर्णय लिया गया। अलावा नोएडा एसीईओ मानवेंद्र इसमें होने वाले खर्च का वहन तीनों प्राधिकरण यानी नोएडा ग्रेटर नोएडा व यमना विकास प्राधिकरण करेंगे। रीजनल प्लान पर निर्णय के लिए एक

समिति बनाई जाएगी।

अ—लेखापरीक्षात अ—लेखापरीक्षात

28.01

19.88

19.88

19.88

1,056.00

0.19

64.53

32.61

32.61

32.61

32.61

1,056.00

23.49

0.23

हस्ता. /-

रामास्वामी नारायण अयुयर

डीआईएन : 03045662

(₹in lakhs

Year Ended

31.03.2023

Audited

15.318.31

90.50

68.05

71.04

416.10

1.64

1.64

4.239.43

3.79

(3.43)

(11.62)

(11.62)

1,056.00

(0.11)

वास्ते इंटीग्रा टेलीकम्युनिकेशन ऐंड सॉफटवेयर लिमिटेड

Audited

4,147.68

11.94

0.68

3.67

0.02

0.02

416.10

सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस तैनात

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा में किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं ली जा सकती है। यही कारण है कि नोएडा की पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने नोएडा व दिल्ली बार्डर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात करने का फुलफ्रफ प्लान तैयार किया है। स्वतंत्रता दिवस पर्व शंतिपूर्वक

मनाने के लिए पुलिस ने अनेक कदम उठाए हैं। नोएडा कमिश्नरी की पलिस ने सोमवार की आधी रात से दिल्ली व नोएडा की सारी सीमाएं सील करने का फैसला किया है। इसी के साथ नोएडा व दिल्ली के बार्डर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। ये पुलिस कर्मी छोटी से छोटी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य जश्न को सुरक्षित रखने के मकसद से नोएडा पुलिस व्यापक तलाशी

अभियान चल रही है। इसी के तहत

यातायात कर्मी करेंगे दो शिफ्ट में नौकरी, आज से होगा बदलाव

गाजियाबाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहरवासियों को जाम की समस्या से आजादी दिलाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा नई पहल की जाएगी। जिसके तहत पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अब दो शिफ्टों में होगी। ऐसे में लोगों को रोजाना सुबह लगने वाले जाम की समस्या से छटकारा मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली से सटी नोएडा की सीमा पर पुलिस बैरियर लगाकर प्रत्येक संदिग्ध वाहन की तलाशी ले रही है। इसी कडी में सभी होटलो व गेस्ट हाउसों में संघन तलाशी अभियान

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त

सीमा ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे

🛡 सचिन संग फहराया राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा साड़ी, माथे पर चुनरी ओढ़ लगाए जयकारे

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने सचिन के साथ मिलकर रविवार को हर घर तिरंगा कैंपन में हिस्सा लिया। सीमा ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए। वहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान तिरंगा थीम की साड़ी पहने सीमा ने अपने माथे पर जय माता दी की चुनरी भी बांध रखी है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ग्रेटर नोएडा में रविवार को सीमा और सचिन ने अधिवक्ता एपी सिंह के साथ अपने घर पर तिरंगा फ हराया। इस दौरान सीमा ने जमकर श्वंदे मातरम बोला। सीमा और सचिन के अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि सीमा ने कोई भी फिल्म साइन नहीं



नोएडा में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सचिन के साथ नारे लगाती सीमा हैदर।

न्यू नोएडा में गाजियाबाद दादरी

होगा औद्योगिक निवेश का केंद्र

की है। रविवार से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर भी जुड़ गई हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह सीमा और सचिन के घर रबूपुरा पहुंचे थे। एपी सिंह ने सीमा और सचिन से काफी देर तक बातचीत की। इसके बाद सीमा.सचिन और बच्चों ने मिलकर अधिवक्ता एपी सिंह के साथ घर की छत पर तिरंगा फ तिरंगे की तरह ही चुन्नी लपेटी थी। हराया। इस दौरान सचिन के पिता नेत्रपाल भी मौजूद रहे। सीमा ने कहा

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

वेस्ट युपी में निवेश का केंद्र अब न्य

नोएडा दादरी नोएडा गाजियाबाद

इन्वेस्टमेंट रीजन होगा। न्यू नोएडा

गौतमबुद्ध नगर के 80 गांवों की

जमीन अधिग्रहीत कर बसाया

जाएगा। प्राधिकरण के बोर्ड ने न्यू

नोएडा के मास्टर प्लान 2041 को

एप्रूव कर दिया है। अब जन सामान्य

से इस पर आपत्ति और सुझाव मांगे

जाएंगे। इसे नोएडा प्राधिकरण और

एसपीए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड

आर्किटेक्ट ने बनाया है। न्यू नोएडा

करीब 21 हजार हेक्टेयर 203 वर्ग

की जमीन अधिग्रहीत की जाएगी।

लैंड पूल के जरिए किसानों

किमी में बसाया जाएगा।

कि वह भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान का समर्थन कर रही हैं। इस अभियान में भाग लेने के लिए ही उन्होंने अपने घर की छत पर तिरंगा फहराया है। इस दौरान सीमा पूरी तरह भारतीय संस्कृति में नजर आईं। सीमा हैदर ने तिरंगा फ हराते समय तिरंगा अपने माथे पर जय माता दी की चुनरी भी बांधी हुई थी। सीमा ने गले में इस दौरान सभी के हाथों में तिरंगा

🛡 ८० गांवों की जमीन

का अधिग्रहण कर

बनाया गया मास्टर

प्लान पास

बुलंदशहर के 60 गांवों को मिलाकर

बनाया गया है। आपत्ति और सुझाव

आने के बाद इसका निपटारा किया

पीएसपी इंस्टीट्यूशनल, फैसिलिटी/

यूटिलिटी, वाटर बॉडी, ट्रैफिक और

ट्रांसपींटर्स भी यहां होगा। इसकी

कुल आबादी 6 लाख मानी जा रही

है। जिसमें 3.5 लाख की आबादी

माइग्रेट होगी। जिनके लिए

इसके अलावा कॉमर्शियल

इंडिस्ट्रियल सेक्टर के वेयरहाउस में लगी आग, कोई जनहानि नहीं

नोएडा। थाना फेस 2 क्षेत्र में बी.120 सेक्टर 88 स्थित एक वेयर हाउस में आग लग गई। वहां गत्ता होने की वजह से आग लग लगई। आग फर्स्ट और ग्रांउड फ्लोर पर फैल गई। गार्ड ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाडियों ने आग पर काब पाया। आग से कोई जन हानि नहीं हुई है।

एंड फार्माक्युटिकल्स CIN NO: L24232DL1996PLC227773
पंजीकृत कार्यालय : 33/36 बेरानीट (बेक साईड), वेस्ट पटेल नगर नियर
राम जय प्रायंड, बेस्ट दिल्ली, दिल्ली-11008
ई मेल आईडी : welcuredrugs227@gmail.com, वेबसाईड : www.welcuredrugs.com

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन अकेक्षित वित्तिय परिणामों का सारा									
_	भाग−1 (रु. लाख में)								
विवरण		समाप्त तिमाही	समाप्त पूव तिमाही	पूर्व वष	, समाप्त वर्ष				
		(30.06.2023)		(30.06.2022)	(31.03.2023)				
			(31.03.2023)	े में समाप्त					
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	तत्स्थानीय ३ महीने (अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)				
1.	परिचालनो से कुल आय	-	5.37	-	6.96				
2.	अवधि के लिये शुद्ध लाभ / (हानि)								
	(कर, विशिष्ट एवँ / अथवा असाधारण मदों के पूर्व*)	(3.32)	1.27	(5.65)	(5.26)				
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ /								
	(हानि) (विशिष्ट एवं / अथवा	(3.32)	1.27	(5.65)	(5.26)				
	असाधारण मदों के बाद*)	(/		(,	(/				
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ /								
	(हानि) (विशिष्ट एवं / अथवा	(3.32)	1.27	(5.65)	(5.26)				
	असाधारण मदों के बाद)								
5.	अवधि हेत् कुल व्यापक आय (अवधि								
	हेत् कर के बाद) लाभ / (हानि) एवं	(3.32)	1.27	(5.65)	(5.26)				
	अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल	(,		(****,	(,				
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1,343.91	1,343.91	1,211.86	1,343.91				
7.	आरक्षित (पूर्नमूल्यांकन आरक्षित को								
	छोड़कर) पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित	_	_	_	_				
	तुलनपत्र में दर्शाए गए अनुसार								
7.	आय प्रति शेयर (रु 10 / – प्रति का)								
	(जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)	l							
	1) मूल	-0.002	0.001	-0.005	-0.004				
	2) तरल	-0.002	0.001	-0.005	-0.004				

- े अपने परिवर्तन के कारण शुद्ध लाम/हानि, कुल व्यापक आय अथवा किसी अन्य संबंधित वित्ती मदों पर प्रभाव को फुट नोट द्वारा उद्देशाटित किया जायेगा।

सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्ज़दारों को माँग सुचनाएँ निर्गमित की थीं, जिसमें उक्त

कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतदार राशि का प्रतिमुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद द्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में

दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतद द्वारा विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु

संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक

कब्ज़े की तिथि

प्लॉट नंबर ए 44, खसरा नंबर 805/5, ओम साईं संतपुरा, बिसोखर मोदीनगर, जलालाबाद, गाजियाबाद

लॉट खसरा नंबर 525 मिन. से संबंधित, मोहल्ला नंद

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9

नगरी, ग्राम सीकरी खुर्द, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश/

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर- 23, न्यू रोहतक

युट्युबर अमित भड़ाना को जान से मारने की धमकी, सहमा परिवार

नोएडा। यूट्यूब के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने वाले यूट्यूबर अमित भड़ाना को जान से मारने की धमकी मिली है। अमित भड़ाना के भाई ने थाना सेक्टर 49 में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है।

सेक्टर 47 निवासी सुधीर भड़ाना ने पुलिस से की शिकायत में बताया कि गत ७ अगस्त की रात्रि को उनके फोन पर व्हाट्सएप कॉल आई, कॉल उठाते ही उक्त व्यक्ति ने उसे भद्दी भद्दी गालियां दी और धमकी दी कि उसके भाई अमित भड़ाना को जान से मार देगा। इस धमकी के बाद अमित के भाई सहम गए और डर से कॉल काट दी। इसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल पर उनके घर और ऑफिस का पता भेज कर लिखा कि उसे परिवार के बारे में सारी जानकारी है। अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में शृटिंग कर रहे उसके भाई अमित बढ़ाना को वह जान से [।] मार देगा। सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

21 हजार हेक्टेयर का ब्रेकअप किया ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी गया है। न्यू नोएडा मास्टर प्लान और एचआईजी प्रकार की यूनिट 2041 में 40 प्रतिशत भू उपयोग बनाई जाएंगी। इसके अलावा कुल औद्योगिक, 13 प्रतिशत आवासीय रैजीडेंस एरिया 2 हजार हेक्टेयर से और ग्रीन एरिया व रिक्रेशनल ज्यादा होगा। न्यू नोएडा में भूमि एक्टिवटी के लिए 18 प्रतिशत अधिग्रहण और आंतरिक विकास के प्रावधान किया गया है। न्यू नोएडा

लिए 1000 करोड़ रुपए बजट को गौतमबुद्ध नगर के 20 और

पुलिस कमिश्नर की पहल पर गरीब बच्चों को मिल रही शिक्षा

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी पर स्लम के बच्चों को सिंह के निर्देश पर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस, एचसीएल फाउंडेशन व चेतना संस्था की संयुक्त रूप से एक अनूठी पहल है। जिसका उद्देश्य शिक्षा से वंचित बच्चों को एक ऐसा सुरक्षित स्थान प्रदान करना है, जहां उन्हें वैकल्पिक शिक्षा देते हुए औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जा सके।

इस पहल के तहत सोमवार को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर.108 में नन्हे परिंदे के अंतर्गत इस मुहिम में वैकल्पिक शिक्षा से औपचारिक शिक्षा में प्रवेश पाने वाले बच्चों से प्यारए दुलार व स्नेह देकर बातचीत

🕨 लक्ष्मी सिंह के निर्देश शिक्षा से जोड़ा जा रहा

किया तथा उनके उत्साहवर्धन के लिए स्कूल बैग, लंच बॉक्स और पेन्सिल बॉक्स वितरित किये।

उन्होंने इस मृहिम की सहराना करते हुए बताया कि हम एचसीएल फाउंडेशन व चेतना संस्था की इस मुहिम में साथ है और सहयोग के लिए तत्पर है। ऐसे बच्चों को भटकने से बचाने के साथ उन्हें अपने सपनों को पुरा करने एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

कामा होल्डिंग्स लिमिटेड

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. कर्जदार/ सह-कर्जदार का

अमित कुमार/ सुमित कुमार/

आदेश कुमार शर्मा/

दिनांक : अगस्त 14, 2023

नाम/ ऋण खाता क्र.

LBMRT00004409381

सीआईएन : एल92199डीएल2000पीएलसी104779

LBMRT00003699042 201204/ आगस्त 11, 2023

अगस्त 11, 2023

पंजीकृत कार्यालय : दि गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट नंबर 236 एवं 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, नोएडा लिंक रोड, मयुर विहार फेज-1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091

कार्पोरेट कार्यालय : ब्लॉक सी, सेक्टर-45, गुरूग्राम-122003, फोन नंबर : (+91-11) 49482870, फैक्स : (+91-11) 49482900

ई-मेल : info@kamaholdings.com वेबसाइट : www.kamaholdings.com

पृथक्कृत और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

डिमांड नोटिस की तिथि/ शाखा का

नाम

गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी

डिमांड नोटिस में राशि (रु.)

फरवरी 22, 2023

16,58,848/

अक्टूबर 31, 2022

8,90,035/-

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेत्

KAMA Holding/

(रू. लाख में) पृथक्कृत समेकित विवरण तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त 30-06-2023 31-03-2023 30-06-2022 31-03-2023 30-06-2022 30-06-2023 अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित (1) (3) (4) (5) (6) 0.52 0.22 25431.18 336262.70 391093.31 1507482.34 1 परिचालन से कुल आय 2 अविध हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर से पहले (6.95)(21.81)25272.22 49019.15 84501.41 299956.60 (6.11)(22.38)24845.82 36168.25 60957.08 232444.82 अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि), कर पश्चात अवधि हेतु कुल व्यापक आय (जिसमें अवधि हेतु (6.83)(22.78)24845.26 42383.59 42382.32 218325.06 लाभ / (हानि) सम्मिलित है) प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 641.81 645.26 641.81 641.81 645.26 641.81 6 प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का) (क) मूल : 480.03 (0.10)(0.35)385.25 286.34 1.943.98 (0.10)(0.35)385.25 286.34 480.03 1,943.98

नोट : उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.kamaholdings.com) पर उपलब्ध है।

कृते एवं हिते बोर्ड कार्तिक भरत राम (डीआईएन : 00008557)

स्थान : गुरूग्राम, हरियाणा

तिथि : 14 अगस्त, 2023

the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com/corporates) and on the Company's The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of

Directors of the Company at their respective meeting held on August 14, 2023 By Order of the Board

for Cosco (India) Limited Devinder Kumar Jain

Managing Director and DIN: 00191539

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित, 100के, मिलाप भवन, 8/ऐ, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। कार्यकारी संपादक: नवीन उपाध्याय, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879900।

NEW DELHI | TUESDAY | AUGUST 15, 2023

WPI inflation stays in negative for 4th month at (-) 1.36% in July

Wholesale price inflation remained in the negative territory for the fourth month in a row in July at (-)1.36 per cent, even though prices of food items, especially vegetables, skyrocketed.

The inflation, however, has inched up from (-)4.12 per cent recorded in June fuelled by 62.12 per cent rise in vegetable

In July last year, wholesale price index (WPI) was 14.07

Particulars

Total Income from Operation (net)

Net Profit for the period before tax

comprehensive income (after tax)]

Earning Per Share (EPS) (not annualised

(before tax, Exceptingal and/or Extraordinary items

Net Profit for the period after tax (after Exceptinoa

and/or Extraordinary items and after minority interest

Comprsing profit for the period (after tax) and othe

Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- Per Share

Company at their meeting held on 14th August, 2023.

Particulars

Net Profit/(Loss) for the period (before

Net Profit/(Loss) for the period before

Net Profit/(Loss) for the period after ta

Net Profit/(Loss) for the period after

Net Profit / (Loss) after Share of

Profit / (Loss) of Associates

Paid up Equity Share Capital

uing and disconting

Earnings/(loss) per share (of Rs. 10/-

www.cse-india.com and www.msei.in respectively

each) (not annualised, in Rs.) for

Total Income from Operations

ax, after exceptional items

ax, exceptional items

comprehensive income

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

(after, Exceptinoal and/or Extraordinary items)

Net Profit for the period



31.03.2023

(3.50)

(3.50)

(13.88)

19.53

24.00

(5.78)

(5.78)

(1.41)

41.99

134.91

24.00

17.49

17.49

The WPI based inflation rate in food articles jumped

SANEH INDUSTRIAL INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office: Delton House 4801 Bharat Ram Road 24 Daryaganj New Delhi -110002 (India) Phone No. 91-11-23273907, CIN: L74899DL1980PL060079

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER ENDED ON 30™ JUNE 2023

23.04

24.00

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the

The above result have been prepared in accordance with principle and procedures of Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified

The above Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results were reviewed and approved by the Board of Directors of the

RAMPUR FERTILIZERS LIMITED

Registered Office: Judges Bareilly Road, Rampur 244 901 (U.P.). CIN: L15136UP1988PLC010084, Email id- info@rampurfert.com,

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

Quarter Ended

Jnaudited

443.51

-320.06

-320.06

-283.77

-286.00

-286.00

494.82

630.56

-53.75

-53.75

-53.75

-53.75

-53.75

494.82

Standalone Results

30.06.2023 31.03.2023 30.06.2022 31.03.2023

Unaudited

1375.23

175.37

175.37

175.37

175.37

494.82

Audited

3230.03

-331.54

-331.54

-338.2

-345.54

-345.54

494.82

FOR THE QUARTER ENDED ON 30 JUNE 2023

under the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified under section 133 of Companies Act, 2013.

30.06.2023 30.06.2022

(1.07)

1.45

24.00

(0.45)

14.25 per cent in July, 2023, against 1.32 per cent in June. "Decline in the rate of

30.06.2023 | 30.06.2022 | 31.03.2023

(2.14)

(2.14)

0.55

24.00

(0.89)

(0.89)

For and on behalf of Board of Directors of

(Rs.In Lakhs)

1.12

75.32

204.59

24.00

31.38

Vivek Gupt

(Rs. In Lacs)

31.03.2023

Audited

3230.03

-331.54

-331.54

-338.2

-345.54

-334.75

494.82

Consolidated Results

ended

30.06.2023

630.56

-53.75

-53.75

-53.75

-53.75

-50.37

494.82

inflation in July, 2023 is primarily contributed by fall in prices of mineral oils, basic metals, chemical & chemical products, textiles and food products," the commerce and industry ministry said on Monday.

CareEdge Chief Economist Rajani Sinha said if the food prices continue to trend upward, the deflationary trend could end, and WPI inflation could turn marginally positive in the coming

Total Income from Operations

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax

Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items#

(after Exceptional and/or Extraordinary items#

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period

Paid up Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve)

Paid up Debt Capital / Outstanding Debt*

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)
(for continuing and discontinued operations)

(after tax) and Other Comprehensive

Equity component of compulsory

Debenture Redemption Reserve Debt Service Coverage Ratio *

Interest Service Coverage Ratio Current ratio* Long Term Debt to Working Capital* Total Debts to Total Assets Ratio*

Credit Rating : IND AA+ (CE)

Debt Equity ratio: mentioned above

Net profit after tax : mentioned above

Earning per share : mentioned above

Renayment + Guarantee fee)

Ratios have been computed as follows

Current Liability Ratio*

ncome (after tax)]

convertible debentures

Diluted

Net Profit / (Loss) for the period after tax

Sensex, Nifty bounce back on fag-end buying in RIL, Infosys

ReNew Akshay Urja Limited

CIN: U40300DL2015PLC275651

Regd. Office: 138, Ansal Chambers II, Bikaji Cama Place, Delhi-110066 Corporate Office: ReNew.hub, Commercial Block-1, Zone-6, Golf Course Road,

DLF City Phase-V, Gurugram, 122009, Haryana, Phone - 0124-4896 670/ 80

Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30 June 2023

ended 30 June 2023

272

133 3,334

11.92 11.92 305 7.52 3.85 3.20 1.95 0.51

Disclosures pursuant to Regulations 52(4) Securites and Exchange Board of India (Listing

Outstanding redeemable preference shares (Quantity and Value) : Not Applicable Net Worth ** (30 June, 2023) : INR 4,611 (31 March, 2023 : INR 4,338)

Debenture Redemption Reserve (30 June, 2023): INR 270 (31 March, 2023: INR 270)

Earning per share (Basic & Diluted) = Profit after Tax / Weighted average number of equity shares

Debt Equity Ratio* = Debt (Amount due to Debenture Holders) / Equity (Equity share capital + share premium + quasi equity i.e. Short term borrowing but excluding unamortize fees)

Interest Service Coverage Ratio = Profit before interest, prior period items, tax, extraordinary items and depreciation / (Total Interest Expense).

Debt Service Coverage Ratio* = ((PAT based on Project Revenues realised (excluding non-cash

adjustment, if any) + Depreciation + Interest (Interest, Guarantee Fees, other financing costs

payable under Debenture and Project Documents)) / (Interest + Principa

*As per Debenture Trust Deed dated 20 September, 2017.
*** Networth represents issued subscribed and paid up capital plus reserves and surplus. Reserves

and Surplus includes Capital reserve, General reserve, Debenture redemption reserve, Securities

Long Term Debt to Working Capital = Non-Current borrowing including current maturities o

Non-current borrowings/ (Current Assets - Current Liabilities (excluding current maturities of Non-Current borrowings))

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Change in credit rating: No Asset Coverage Ratio: 187% (31 March, 2023: 181%)

Debt Service Coverage Ratio: mentioned above

Interest Service Coverage Ratio: mentioned above

Equity benchmark indices Sensex and Nifty bounced back from intra-day lows to settle in positive territory on Monday, helped by fag-end buying in index heavyweights Reliance Industries, Infosys and ICICI Bank amid a firm start in European markets.

The 30-share BSE Sensex climbed 79.27 points or 0.12 per cent to settle at 65,401.92. During the day, it fell 500.77 points or 0.76 per cent to

The NSE Nifty gained 6.25

30 June 2022

1,144

4,046



points or 0.03 per cent to end

"Markets continued to wit-

ended ended 31 March 2023 31 March 2023

203

150 133 3,061

1,144

4,338

6.56 6.56 239 3.72

ness wild fluctuations due to weak Asian cues, but early optimism in European indices aided the recovery in local markets with the help of buoyancy in IT stocks. However, deflaand demand slowdown in China, coupled with concerns over more rate hikes in developed economies going ahead, have been taking the sheen out of equity markets.

"İnvestors are also wary of

steady selling by foreign investors in local markets this month, which is causing traders to limit their exposure, Shrikant Chouhan, Head of Research (Retail), Kotak Securities Ltd, said. From the Sensex pack,

Infosys, Hindustan Unilever, Reliance Industries, ICICI Bank, Larsen & Toubro, Asian Paints, Nestle, Axis Bank, Wipro and Kotak Mahindra

JSW Steel, State Bank of India, Tata Steel, Bajaj Finserv, UltraTech Cement, IndusInd Bank, Tata Motors and Bajaj

Finance were the major lag-In the broader market, the

BSE smallcap gauge declined by 0.50 per cent, and the midcap index fell by 0.44 per cent. Among the indices, metal declined by 1.81 per cent, commodities fell by 1.66 per cent, power (0.91 per cent),

realty (0.65 per cent) and utilities (0.63 per cent) were among the major laggards. FMCG, IT and teck were the "Following weak perfor-

mances in Asian markets, the domestic indices commenced the day with a negative bias, prompted by discouraging domestic industrial data, along with concerns over demand However, the indices man-

aged to recover from their initial losses, ending the day on a relatively neutral note," said Vinod Nair, Head of Research at Geojit Financial Services.

Adani group stocks slide; Ambuja Cements, Adani Ent fall over 3%

 $S_{\text{Adani group}}^{\text{hares}} \quad \text{of} \quad$ firms fell on Monday after resigned



auditor of the group's port company.

Deloitte has resigned as auditor of the Adani oup's port company, with the firm run by billionaire Gautam Adani saying the auditor wanted a wider remit over other companies in the conglomerate following the report of a US short sell-

Shares of Ambuja Cements dived 3.49 per cent, Adani Enterprises fell by 3.26 per cent, Adani Transmission declined by 2.69 per cent and ACC slipped 2.27 per cent on the BSE.

The stock of Adani Green Energy declined by 2.09 per cent, Adani Wilmar (1.96 per cent), Adani Total Gas (1.88 per cent), Adani Ports skidded 1.66 per cent, NDTV (1.37 per cent) and Adani Power (0.78 per cent).

In the equity market, the 30-share BSE Sensex bounced back during the fag-end of the trade and climbed 79.27 points or 0.12 to settle

The resignation came weeks after Deloitte raised concern over certain transactions flagged ort of Hindenburg

In a statement, Adani Ports & Special Economic Zone (APSEZ) confirmed the resignation and appointment of M S K A & Associates as the new auditor.

'No proposal to put import restrictions on more electronic goods at present'



There is no proposal at present to impose import restrictions on more electronic goods, Commerce Secretary Sunil Barthwal said on Monday.

The government has decided to impose import curbs on laptops, personal computers and certain more electronic devices from November 1 on security grounds to reduce imports from nations like China and boost domestic manufactur-

Barthwal said there is a production-linked incentive (PLI) scheme for electronics and mobile manufacturing.

"We are monitoring our imports. We are also looking undue dependence on any particular country. We want to diversify both our exports

Place: Rampur Date: 14.08.2023

NOTES: The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33

of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Company's website at

www.rampurfert.com and the same has been also sent to Stock exchanges, i.e. CSE and MSE to upload on website i.e

Integra Telecommunication and Software Limited

CIN:L74899DL1985PLC020286
Registered Office: Flat No. 1311,13th Floor, Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi - 110019
Corporate Office: 610/611, Nirmal Galaxy Avior, L.B.S. Road, Mulund (W), Mumbai-400080
Email ID: info@integratelesoftware.com; Website: www.integratelesoftware.com

Extract of Statement of Un-Audited Results for the Quarter ended on 30/06/2023

	(Amount in lakhs)							
S.		C	Year ended					
No.	Particulars		31.03.2023 Un-Audited					
1.	Total Income from Operations	3.74	3.79	28.01	64.53			
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.43)	(3.43)	19.88	32.61			
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.43)	(3.43)	19.88	32.61			
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.43)	(11.62)	19.88	32.61			
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)]	(2.43)	(11.62)	19.88	32.61			
6.	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per share)	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00			
7.	Reserve (exculding revaluation reserves as shown in the balance sheet of previous year)		-	-	23.49			
8.	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted	(0.02)	(0.11)	0.19	0.23			

Place: Mumbai

Date: 14.08.2023

The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 14th August, 2023. Format of the Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website at www.integratelesoftware.com

For Integra Telecommunication and Software Limited

Ramaswamy Narayan Iyer Managing Director DIN:03045662

Anshuman Khaitar

(Managing Director)

Total Debts to Total Assets Ratio = Total outstanding debts/ Total Assets

- Debtors Turnover Ratio = Revenue from operations /Average Trade Receivables *As per Debenture Trust Deed dated 20 September, 2017. ** Networth represents issued subscribed and paid up capital plus reserves and surplus. Reserves and Surplus includes Capital reserve, General reserve, Debenture redemption reserve, Securities

premium account and Profit and loss account balance.

Current Liability Ratio= Current Liabilities/ Total Liabilities

premium account and Profit and loss account balance. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Nationa Stock Exchange under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the website of the Stock Exchange and the listed

entity - http://renew.com/renew-akshay-urja-limited/ The company is in the business of development and operation of solar power. There is only one segment (business and/or geographical) in accordance with the requirements of

IND AS - 108 "Operating Segments" For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange (NSE) and can be accessed on the URL https://www.nseindia.com/

The above financial results of the Company for the quarter and for the period ended June 30, 2023 have been approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held or August 14, 2023. The statutory auditors of the company have carried out the limited review of the above unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2023.

Date : 14 August, 2023

ReNew Akshay Urja Limited (Sd./-) Parul Agrawal Managing Director, DIN: 08452687

Domestic air passenger traffic jumps 25% in July

Domestic air passenger traffic volume surged 25 per cent year-on-year to 1.21 crore passengers in July, according to DGCA data released on Monday.



IndiGo carried 76.75 lakh passengers, cornering a market share of 63.4 per cent during the reporting month.

Tata Group-owned Air India stood a distant

second with the airline flying a total of The data from the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) showed that domestic carriers flew 97.05 lakh passengers in July 2022.

11.98 lakh passengers in July. It had a market share of 9.9 per cent for the month.

KAMA HOLDINGS LIMITED CIN: L92199DL2000PLC104779

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, 2nd Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091

Corporate Office: Block C, Sector 45, Gurgaon-122003, Tel. No : (+91-11) 49482870 • Fax : (+91-11) 49482900

Email: info@kamaholdings.com; website: www.kamaholdings.com

STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(Rs. in Lakhs)

KAMA Holdings

TORTHE GOARTER ENDED CORE OF, 2020							
	STANDALONE				CONSOLIDATED		
		QUARTER ENDED		YEAR ENDED	QUARTER ENDED Y		YEAR ENDED
SI.	Particulars	30-6-2023	30-6-2022	31-03-2023	30-6-2023	30-6-2022	31-03-2023
No.		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Total Income from Operations	0.52	0.22	25431.18	336262.70	391093.31	1507482.34
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax	(6.95)	(21.81)	25272.22	49019.15	84501.41	299956.60
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(6.11)	(22.38)	24845.82	36168.25	60957.08	232444.82
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period	(6.83)	(22.78)	24845.26	42383.59	42382.32	218325.06
5	Paid up Equity Share Capital	641.81	645.26	641.81	641.81	645.26	641.81
6	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)						
	(a) Basic :	(0.10)	(0.35)	385.25	286.34	480.03	1,943.98
	(b) Diluted:	(0.10)	(0.35)	385.25	286.34	480.03	1,943.98

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financials Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and the Company's website (www.kamaholdings.com).

> For and on behalf of the Board Kartik Bharat Ram

(DIN:00008557)

Place: Gurugram, Haryana Date : 14th Aug 2023

Chairman